



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 अग्रहायण 1944 (श0)  
(सं0 पटना 1074) पटना, बुधवार, 14 दिसम्बर 2022

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

अधिसूचना

7 दिसम्बर 2022

सं० 01/प.04-02/2013 693—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल “बिहार पुरातत्त्व एवं संग्रहालय सेवा नियमावली, 2014” का संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ** —
  - (1) यह नियमावली “बिहार पुरातत्त्व एवं संग्रहालय सेवा (संशोधन) नियमावली, 2022” कही जा सकेगी।
  - (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
  - (3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।
2. “बिहार पुरातत्त्व एवं संग्रहालय सेवा नियमावली, 2014” के नियम 8 (2) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:-

**8 (2). अभ्यर्थी की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता— अनिवार्य अर्हताएँ—**

- (क) प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति/पुरातत्त्व अथवा प्राचीन भारतीय एवं एशियाई अध्ययन/प्राचीन भारतीय इतिहास एवं कला इतिहास में स्नातकोत्तर की डिग्री।
- (ख) पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा-इन-म्यूजियोलॉजी/पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा-इन-आर्कियोलॉजी न्यूनतम 55: अंक के साथ।

अथवा

उत्खनन/संरक्षण/संग्रहालय में 03 (तीन) वर्षों का कार्य अनुभव।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
बन्दना प्रेयषी,  
सरकार के सचिव।

---

Department of Art, Culture & Youth

---

**Notification**  
**7<sup>th</sup> December 2022**

No-1/P.4-02/2013- 693—By utilising the power conferred by the proviso of the Article 309 of the Constitution of India the Governor of Bihar makes following rule by making amendment in the “Bihar State Archaeology & Museum Service Rules, 2014” :-

**1. Short title, extent and commencement :-**

- (1) This rule may be called the Bihar State Archaeology and Museum Service (Amendment) Rules, 2022.
- (2) It shall extend to the whole of the state of Bihar.
- (3) It shall come in to force from the date of Publication in the official gazette.

**2. Substitution of Rule 8 (2) of the Bihar State Archaeology & Museum Service Rules, 2014 as following:-**

**8 (2). Minimum educational qualification of the candidates:- Essential qualification:-**

- (a) The post graduate degree in the Ancient Indian History and Culture/Archaeology or Ancient Indian and Asiatic Studies/Ancient Indian History and Art History.
- (b) Post graduate diploma in Museology/post graduate diploma in Archaeology with minimum 55% marks.

Or

Three (03) years work experience in excavation/conservation/museum.

**By the order of the Governor of Bihar,  
 Bandana Preyashi,  
 Secretary to the Government.**

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
 बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
 बिहार गजट (असाधारण) 1074-571+100-डी0टी0पी0।  
 Website: <http://egazette.bih.nic.in>